

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1984/चैत्र 13, 1906
No. 104] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1984/CHAITRA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

साध्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1984

सा. का. नि. 267(अ) :—मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा
निदेशालय, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 14 के उपखंड (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955
का 10) की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त बना हुआ है, भारत सरकार के
साध्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अभिसूचना सं. सा.का.नि. 008(अ) तारीख

22 दिसम्बर, 1983 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करते हैं,
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पाठ दृष्टि में, "31 मार्च, 1984" अंकों
और शब्द के स्थान पर "30 अप्रैल, 1984" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 13-वीपी (3)/81]

पी. एम. चीमा, मुख्य निदेशक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1984

G.S.R. 267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, hereby makes the following Order further to amend the Notification of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies No. G.S.R. 908(E), dated the 22nd December, 1983, namely :—

In the said Notification, in the Footnote to the schedule, for the figures and word "31st March, 1984", the figures and word "30th April, 1984", shall be substituted.

[No. 13-VP(3)|81]

P. S. CHEEMA, Chief Director